



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1538]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 2007/अग्रहायण 21, 1929

No. 1538]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2007/AGRAHAYANA 21, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

तालिका

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2124 (अ).—यतः मै. आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी), जो आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्णतः स्वामित्व वाली राज्य औद्योगिक संवर्धन संगठन है, ने आंध्र प्रदेश राज्य के मेडिकोंडा गाँव, हनमकोंडा मण्डल, वारंगल जिले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और, यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उक्त मेडिकोंडा गाँव, क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 26 जून, 2007 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के मेडिकोंडा गाँव, हनमकोंडा मण्डल, वारंगल जिले में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

क्र. सं.	गांव का नाम	सर्वेक्षण सं.	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मेडिकोंडा	1596	6.64
2.		1597	1.59
3.		1598	1.05
4.		1703/1	5.22
कुल :			14.50 हेक्टेयर

[सं. एफ. 2/665/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2007

S.O. 2124(E).— Whereas M/s. Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited (APIIC), a fully owned State Industrial Promotion Organisation in the State of Andhra Pradesh, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Madikonda Village, Hanamkonda Mandal, Warangal District in the State of Andhra Pradesh;

And, whereas the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the

said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Madikonda Village area on the 26th June, 2007;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of Rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the following area at Madikonda Village, Hanamkonda Mandal, Warangal District in the State of Andhra Pradesh, comprising of the Survey numbers and the area given below, as a Special Economic Zone, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Total Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Madikonda	1596	6.64
2.		1597	1.59
3.		1598	1.05
4.		1703/1	5.22
			TOTAL : 14.50 Hactares

[No. F. 2/665/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.